

ईसीजीसी लिमिटेड

पंजीकरण सं. 124

पंजीकरण की तारीख : 27 सितंबर, 2002

31 दिसम्बर 2016 को समाप्त अवधि के लिए राजस्व खाता (अलेखापरीक्षित)

(₹ '000)

|   | विवरण                                               | अनुसूची<br>संदर्भ फॉर्म<br>सं | दिसम्बर 2016 की<br>तिमाही हेतु | दिसम्बर 2016<br>की तिमाही तक | दिसम्बर 2015<br>की तिमाही हेतु | दिसम्बर 2015 की<br>तिमाही तक |
|---|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1 | अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)                             | एन एल -4                      | 235,83,09.37                   | 594,74,45.24                 | 265,35,40.41                   | 679,66,81.94                 |
| 2 | निवेश की बिक्री / भुनाने पर लाभ                     |                               | 74,67.72                       | 7,29,48.87                   | -                              | 86,13.69                     |
| 3 | ( निवेश की बिक्री / भुनाने पर हानि )                |                               | 0.01                           | -                            | -                              | -                            |
| 4 | अन्य                                                |                               |                                |                              |                                |                              |
|   | - शुल्क                                             |                               | 30,09.92                       | 96,27.35                     | 27,10.44                       | 89,29.27                     |
|   | - दावों और प्रीमियम पर ब्याज                        |                               | 7,89.75                        | 72,11.42                     | 2,29.40                        | 24,27.49                     |
|   | - विनिमय उतार-चढ़ाव लाभ (शुद्ध)                     |                               | -                              | -                            | -                              | -                            |
|   | - विविध आय                                          |                               | 1,89.05                        | 12,86.41                     | 14.45                          | 56,15.91                     |
|   | - आस्तियों की बिक्री पर लाभ                         |                               | 2,75.81                        | 3,24.15                      | 30.66                          | 2,10.50                      |
| 5 | ब्याज, लाभांश एवं किराया - सकल                      |                               | 93,82,13.90                    | 274,53,12.58                 | 87,71,32.01                    | 258,83,17.37                 |
|   | <b>कुल (क)</b>                                      |                               | <b>330,82,55.53</b>            | <b>878,41,56.02</b>          | <b>353,36,57.37</b>            | <b>941,07,96.17</b>          |
| 1 | किए गए दावे (शुद्ध)                                 | एन एल -5                      | 560,46,28.49                   | 805,29,31.69                 | 148,19,15.68                   | 612,22,02.22                 |
| 2 | कमीशन                                               | एन एल -6                      | (16,11,38.84)                  | (45,82,02.90)                | (18,12,76.33)                  | (47,85,23.20)                |
| 3 | बीमा कारोबार से संबन्धित परिचालन व्यय               | एन एल -7                      | 60,60,63.34                    | 151,22,69.60                 | 48,08,77.61                    | 144,34,32.43                 |
| 4 | अन्य                                                |                               |                                |                              |                                |                              |
|   | - प्रीमियम में कमी                                  |                               | 7,15,96.40                     | (51,75,52.24)                | -                              | -                            |
|   | <b>कुल (ख)</b>                                      |                               | <b>612,11,49.39</b>            | <b>858,94,46.15</b>          | <b>178,15,16.96</b>            | <b>708,71,11.45</b>          |
|   | विविध कारोबार से परिचालन लाभ / ( हानि ) ग = ( क -ख) |                               | <b>(281,28,93.86)</b>          | <b>19,47,09.87</b>           | <b>175,21,40.41</b>            | <b>232,36,84.72</b>          |
|   | <b>विनियोजन</b>                                     |                               |                                |                              |                                |                              |
|   | शेयर धारक के खाते में अंतरण                         |                               | <b>(281,28,93.86)</b>          | <b>19,47,09.87</b>           | <b>175,21,40.41</b>            | <b>232,36,84.72</b>          |
|   | आपदा प्रारक्षित निधि में अंतरण                      |                               | -                              | -                            | -                              | -                            |
|   | अन्य प्रारक्षित निधियों में अंतरण                   |                               | -                              | -                            | -                              | -                            |
|   | <b>कुल (ग)</b>                                      |                               | <b>(281,28,93.86)</b>          | <b>19,47,09.87</b>           | <b>175,21,40.41</b>            | <b>232,36,84.72</b>          |